

## जनपद बाराबंकी

दिनांक-22.11.2021

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा० न्या० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)-44 बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष 10 माह का कठोर कारावास व 50,000 रु० अर्थदण्ड से किया दण्डित –

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि०/ कर्म०गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा० न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया० में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी,जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना असन्द्रापर पंजीकृत मु०अ०स० 132/18 धारा 363/366/376/323/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त कीर्तिमान पुत्र योगेन्द्र कुमार निवासी जरौली थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा० न्या० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)-44 बाराबंकी द्वारादोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष 10 माह का कठोर कारावास व 50,000 रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।

### संक्षिप्त विवरण:-

वादीकुंवर चन्द्र द्विवेदी पुत्र स्व० जगतनरायन द्विवेदी निवासी जरौली थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी में दिनांक 07.05.2018 को दी, कि अभियुक्त द्वारा वादी की नातिन को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करना, जिसके सम्बन्ध में थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी पर मु०अ०स०-132/2018 धारा 363/366/376/323/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम कीर्तिमान पुत्र योगेन्द्र कुमार निवासी जरौली थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया।तत्कालीन विवेचक उ०नि० श्री शवाब हैदर द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये,अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

### पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 2- उ०नि० कमलेश कुमार शुक्ला मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 3-हे०का० अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 4- म०का० प्रतिमा द्विवेदीमॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 5- म०का० पूनम देवी, म०का० सपना, मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 6- हे०का० जीतलाल सरोज थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।